



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]
No. 24]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14 1984/श्रावण 23, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 1984/SRAVANA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1984

कांति० प्रा० 66(अ) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड मेरठ के गठन में फेरफार होना वांछनीय है एतद्-द्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अनिवार्य निवेदन देती है कि 14 अगस्त, 1984 से छ माह की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या—29/30/सी/भू. व छा /77/4869 सी/डी (क्यू एण्ड सी.)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th August, 1984

S.R.O 65 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the

administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Meerut, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of six months with effect from the 14th August, 1984 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29/30/C/L&C/77/4869 C/D(Q&C)]

का ति.प्रा 67(अ) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.ति.प्रा 66-ई दिनांक 14 अगस्त, 1984 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 14 अगस्त, 1984 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को छावनी बोर्ड, मेरठ के सदस्य के रूप में 14 अगस्त, 1984 से मनोनीत किया गया है :—

1. लेफ्टि कर्नल जे.एम राय

धारा 14 की उपधारा (2) के
खण्ड (ख) के अन्तर्गत
नामांकित

2. श्री आर. पी. महेश्वरी धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित।

[फाइल संख्या-29/30/सी/भू. व छा./77/4869सी/डी(क्यू. एण्ड सी)]
के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

S.R.O. 67 (E) :—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O.-66 E dated the 14th Aug., 1984, published in the Government of India Extraordinary Gazette, Part

Section 4 dated the 14th Aug., 1984 the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated to be the members of the Cantonment Board, Meerut, with effect from 14th Aug., 1984 :—

1. Lt. Col. J.M. Rai nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14
2. Shri R.P. Maheshwari nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F.No.29/30/C/L&C/77/4869C/D(Q&C)]
K. SRINIVASAN, Jt Secy.